



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 112] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 1982/चैत्र 5, 1904
No. 112] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 1982/CHAITRA 5, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 26 मार्च, 1982

का.आ. 178(अ)/18(क)/आई डी आर ए/82.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का.आ. 157(अ)/18क/उ. वि.वि.अ./79 तारीख 27 मार्च, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) कलकत्ता स्थित मैसर्स लिली बिस्कुट कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड और मैसर्स विल्ली बारले मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध, 27 मार्च, 1979 से तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था, और पश्चिमी बंगाल सरकार के रुग्ण और बन्व उद्योग विभाग के सचिव कलकत्ता को "प्राधिकृत नियंत्रक" के रूप में नियुक्त किया गया था ;

और केन्द्रीय सरकार, की यह राय है कि लोकाहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहे ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 26 सितम्बर, 1982 तक, जिसके अन्तर्गत वह तारीख भी है, की छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 2(3)/80-सीयूएस]

सी. के. मोदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 26th March, 1982

S.O. 178(E)/18A/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 157(E)/18A/IDRA/79, dated the 27th March, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the Industrial Undertakings known as Messrs Lily Biscuit Company (Private) Limited and Messrs Lily Barley Mills (Private) Limited, both located at Calcutta, had been taken over for a period of three years with effect from 27th March 1979 and the Secretary to the Government of West Bengal in the Department of Sick and Closed Industries, Calcutta, was appointed as "Authorised Controller" ;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period of six months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of 26th September, 1982.

[File No. 2(3)/80-CUS]

C. K. MODI, Jt. Secy.